



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी ।

### प्रेस-नोट

दिनांक- 17.11.2022

#### अंतर्राज्यीय लूटेरा गैंग के विरुद्ध थाना दशाश्वमेध पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

उ0प्र0 शासन की अपराधियों के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति के अनुरूप चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन व श्रीमान् पुलिस उपायुक्त काशी जोन, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन तथा श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में आज दिनांक- 17.11.2022 को अंतर्राज्यीय लूटेरा गैंग जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भीड़ का फायदा उठाते हुए अपने गिरोह के सदस्यों के साथ लूट का अपराध कारित करते हैं, के विरुद्ध थाना दशाश्वमेध कमि0 वाराणसी में मु0अ0सं0 79/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गैंग के सदस्यों का अपराध कारित करने का तरीका:-** उक्त गैंग के सदस्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाकर भीड़ का हिस्सा बनते हुए किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं, टारगेट को भीड़ में धक्का देकर असंतुलित कर देते हैं, जब तक टारगेट अपने आप को सम्भालता है तब तक गैंग के अन्य सदस्यों द्वारा भीड़ का फायदा उठाकर उनके चेन आदि कीमती वस्तु को लूट लेते हैं तथा लूटी वस्तु की पहचान समाप्त करने के दृष्टि से तत्काल गलाकर चेन आदि कीमती वस्तु को विरूपित कर देते हैं। अभियुक्त के पास से गिरफ्तारी व बरामदगी के समय लूटी गयी चेन पीली धातु का गलाया हुआ गुटका तथा धातु को गलाने हेतु उपकरण बरामद हुआ था ।

#### गैंग के सदस्यों का विवरण-

1. धीरज कुमार पुत्र स्व0 रामनाथ राय निवासी कठिया मठिया पोखरिया थाना कंगली जिला प0 चम्पारण बिहार उम्र 25 वर्ष ।
2. दिलीप कुमार पुत्र राम सागर राठौर निवासी ग्राम बसपुर थाना सोहोदरा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार उम्र 28 वर्ष ।
3. सचितानन्द राय पुत्र स्व0 टेनी राय निवासी पिपरिया पो0 बेलवा थाना पलनवा जिला पूर्वी चम्पारण बिहार उम्र 45 वर्ष । (45 वर्ष) (गैंग लीडर)
4. अजय राय पुत्र रामचन्द्र राय निवासी आनन्दसागर, पोस्ट बेलवा, पिपरिया, थाना पलनवा, जिला पूर्वी चम्पारण मोतीहारी बिहार- उम्र 30 वर्ष ।

#### गैंग के सदस्यों के विरुद्ध पंजीकृत अपराध:-

1. मु0अ0सं0 69/2022 धारा 392/411 भादवि थाना दशाश्वमेध कमि0 वाराणसी ।
2. मु0अ0सं0 70/2022 धारा 392/411 भादवि थाना दशाश्वमेध कमि0 वाराणसी ।
3. मु0अ0सं0-104/2022 धारा- 392/411 भादवि थाना- चौक कमि0 वाराणसी ।
4. मु0अ0सं0-77/2018 धारा- 392/411 भादवि थाना- रामजन्म भूमि अयोध्या ।
5. मु0अ0सं0-79/2018 धारा- 392/411 भादवि थाना- रामजन्म भूमि अयोध्या ।
6. मु0अ0सं0 79/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना दशाश्वमेध कमि0 वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त,  
जोन काशी कमिश्नरेट  
वाराणसी ।